

कृषि-भौतिक एवं जलवायु विज्ञान

कक्षा-11

तृतीय प्रश्न-पत्र
सिद्धान्त

इकाई-1-सामान्य मात्रक, मापन, विमा, विमा के उपयोग, वर्नियर तथा सूक्ष्म मापी पैमाने, बलों का संगठन और विघटन बल, समान्तर बल, बल युग्म, बल का घूर्ण, बल साम्यवस्था। 10

इकाई-2-वेग तथा त्वरण, संवेग, गति के नियम, गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वाजनित त्वरण, वृत्तीय गति, अपकेन्द्रीय तथा अभिकेन्द्रीय बल। उपग्रह का कक्षीय वेग, पलायन वेग, द्रवों पर दाब, कोशित्व तथा बल, तनाव, वायु मण्डलीय दाब, वायुदाबमापी, ठोस द्रव का आपेक्षिक घनत्व, घनत्व बोतल, निक्ल्सन हाइड्रोमीटर। 10

इकाई-3-घर्षण और उनके नियमों के सरल उदाहरण, सरल मशीनें जैसे धिरी तथा उत्तोलक। साधारण पम्पों का कार्य चालन, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, ऊर्जा तथा ताप संवहन, संचालन तथा विकिरण ऊर्जा चालकता गुणांक, ऊर्जा, संवाहकर्ता, आपेक्षिक ऊर्जा, मिट्रिटों के विशेष संदर्भ में। ऊर्जा के कारण मिट्री में भौतिक परिवर्तन, गुप्त ऊर्जा एवं कार्य में सम्बन्ध, औसांक, अपेक्षिक आर्द्रता और इसका निवारण मेघ, कुहरा, कुहसा, पाला, हिम, ओला आदि की रचना मौसम पूर्वानुमान पर प्रारम्भिक विचार ऊर्जा और 10 कार्य से सम्बन्ध।

इकाई-4-प्रकाश संचरण के नियम, सम तथा गोली तलों से परावर्तन तथा वर्तन ताल (लेन्स) सूक्ष्मदर्शी अवरक्त, पराबैग्नी तथा दृश्य विकिरण पर प्रारम्भिक विचार। व्यक्तिकरण एवं ध्रुवण की संक्षिप्त जानकारी, ध्वनि वेग आवृत्ति तरंग दैर्घ्य में सम्बन्ध, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा, आवृत्ति तरंग, दैर्घ्य में सम्बन्ध, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा, आवृत्ति आवर्तकाल में सम्बन्ध। 10

इकाई-5-विद्युत प्राथमिक तथा संचालक सेल, धारा, वोल्टता और प्रतिरोध विद्युत शक्ति, शक्ति की यांत्रिक एवं विद्युत मापकों के सम्बन्ध, विद्युत मात्रक, विद्युत के उपयोग। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धान्त, मीटरसेतु पोस्ट आफिस बाक्स, विभवमापी का संक्षिप्त अध्ययन। 10

प्रयोगात्मक

50

लम्बाई क्षेत्रफल सहित आयतन तथा घनत्व का शुद्ध निर्धारण, कैलीपर्स, पेंचमापी, तुला तथा वर्गीकृत-पत्र का प्रयोग, समान्तर चतुर्भुज का नियम का सत्यापन, उत्तोलक के सिद्धान्त का सत्यापन, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व निकालना, ब्यायल वायुदाब मापी (बैरोमीटर) पढ़ने का अभ्यास।

घनत्व बोतल का प्रयोग, यथार्थ तथा आभासी घनत्वों का निकालना एवं मिट्री का रखावकाश।

विभिन्न तापमापक के गठन का अभ्यास, विशिष्ट ऊर्जा निकालना, गुप्त ऊर्जा निकालना, औसांक तथा आपेक्षिक आर्द्रता निकालना।

प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन दर्पण के तालों (लेन्सों) का नाभ्यांतर (फोकस दूरी) निकालना, वर्तनांक निकालना।

साधारण सेल बनाना, वोल्टामापी तथा अमापी की विधि एवं मीटर सेतु से प्रतिरोध की माप श्रेणी तथा माप समान्तर क्रम में लैम्पों का जोड़ना, पोस्ट आफिस, बाक्स आफिस द्वारा दिये गये अंजात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना।

संस्तुत पुस्तकें-

कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गयी है। विद्यालय के प्रधान, विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लें।

भौतिक एवं जलवायु विज्ञान (कृषि भाग-1)

अधिकतम अंक : 50

न्यूनतम उत्तीर्णांक : 16

समय : 03 घंटा

1—वाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन

निर्धारित अंक

1—एक प्रमुख एवं एक सहायक परीक्षण (10+7) 17 अंक

2—मौखिकी 08 अंक

कुल— 25 अंक

2—आन्तरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन

1—अभ्यास पुस्तिका 08 अंक

2—प्रोजेक्ट तथा इस पर आधारित मौखिकी 10 अंक

3—सत्रीय प्रयोगात्मक कार्य 07 अंक

कुल— 25 अंक

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा—

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जायेंगे, उन विद्यालयों के सम्बन्धित विषयों के अध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा आन्तरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को पचास प्रतिशत अंक प्रदान किये जायेंगे, शेष पचास प्रतिशत अंक वाह्य परीक्षक द्वारा देय होंगे।